

शाखा/उपशाखा कार्यालय
 B.O./P.O. _____

1. मृतक का नाम / Name of the deceased	
2. मृतक का प्रमाण / Proof of death	
3. दावेदार (रों) का नाम : उसका/उनका मृतक से सम्बन्ध Name of the claimant(s) : his/her/their relation with the deceased	
4. दावे की जमा राशि अथवा अन्य वस्तु तथा उसका विवरण। Amount deposit or subject matter of claim with particulars thereof	
5. मृतक की बैंक के प्रति देयताएं, यदि कोई हो। Particulars of liabilities of deceased to the Bank, if any.	
6. क) क्या मृतक ने कोई वसीयत छोड़ी है? यदि हां, तो नोटरी अथवा मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् प्रमाणित उसकी एक प्रति-लिपि संलग्न करें। a) Did the deceased leave any will? If so, a copy thereof, duly certified by a Magistrate or Notary be enclosed. ख) क्या वसीयत रजिस्टर्ड है? b) Is the will registered? ग) क्या सक्षम न्यायालय से वसीयत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उसकी सत्य-प्रतिलिपि संलग्न की जाए। c) Has probate been obtained from a competent court? If so, its true copy should be enclosed. घ) वसीयत के निष्पादकों यदि कोई हों, अथवा वसीयत में उल्लिखित हितधारियों के नाम। d) Name of the executors, If any, or beneficiaries under the will .	
7. क) कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम तथा मृतक (पुरुष) से उनके सम्बन्ध। a) Name of the legal heirs and their relations with the deceased (Male) i) पुत्र / Son(s) ii) पुत्री/पुत्रियों / Daughter(s) iii) विधवा/Widow iv) माता/ Mother v) पूर्वमृत पुत्र का पुत्र Son of predeceased son	

<p>vi) पूर्वमृत पुत्र की पुत्री Daughter of predeceased son</p> <p>vii) पूर्वमृत पुत्री की पुत्र Son of predeceased daughter</p> <p>viii) पूर्वमृत पुत्री की पुत्री Daughter of predeceased daughter</p> <p>ix) पूर्वमृत पुत्र की विधवा widow of predeceased son</p> <p>x) पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र Son of predeceased son of a predeceased son</p> <p>xi) पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री Daughter of predeceased son of a predeceased son</p> <p>xii) पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा widow of a predeceased son of a predeceased son</p> <p>ख) कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम तथा मृतक (स्त्री) से उसके सम्बन्ध। b) Names of the legal heirs and their relation with the deceased (Female).</p> <p>i) पुत्र/ Son(s)</p> <p>ii) पुत्री/पुत्रियां / Daughter(s)</p> <p>iii) किसी भी पूर्वमृत पुत्र के बच्चे Children of any predeceased son</p> <p>iv) किसी भी पूर्वमृत पुत्री के बच्चे Children of any predeceased daughter</p> <p>v) पति/ Husband</p>	
<p>8. क्या कानूनी उत्तराधिकारियों, निष्पादकों अथवा हिताधिकारियों में से कोई अवयस्क है? यदि हां, तो अवयस्क (कौं) की आयु क्या है और वह (वे) किसके अभिरक्षण में है/हैं? क्या न्यायालय ने किसी को उसका/उनका संरक्षक नियुक्त किया है?</p> <p>Is any of the legal heirs, executors or beneficiaries minor? If so, what is the age of the minor(s) and in whose custody he/she is? has any court guardian been appointed?</p>	
<p>9. क्या दावेदार (रों) ने सक्षम न्यायालय से कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा प्रशासन-पत्र प्राप्त किया है? यदि हां, तो उसकी सत्य-प्रतिलिपि संलग्न की जाये?</p> <p>Has any succession certificate or letters of administration been obtained by the claimant (s) from a competent court? If so, its true copy should be enclosed.</p>	
<p>10. अन्य कोई विवरण Any other particulars</p>	

(3)

घोषणा/ **DECLARATION**

मैं/हम घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य है और उसमें कोई भी सूचना छिपाई या दबाई नहीं गयी है।
I/We declare that the aforesaid contents are correct and nothing has been concealed or withheld.

टिप्पणी : यह फार्म साफ-साफ भरा जाना चाहिए और इसमें मांगी गयी पूरी सूचना दी जानी चाहिए।

N.B. : This form should be filled in legibly and completed in every respect.

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर
Signature of Claimant(s)

मेरे सामने श्री _____ ने घोषणा की है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथवा जिनकी पहचान _____ ने की है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

Declaration before me by _____ whom I personally know or who has been Identified by _____ whom I personally know.

मैजिस्ट्रेट के न्यायालय
अथवा नोटरी की मोहर

Seal of the court of the
Magistrate or Notary

मैजिस्ट्रेट के सामने घोषणाकर्ता
की पहचान करने वाले के
हस्ताक्षर

Signature of the person
identifying the declarant
before the Magistrate

मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी के हस्ताक्षर जिनके सामने
घोषणा की गयी है।
Signature of the Magistrate or Notary
before whom the declaration is made.

(4)

प्रबन्धक का प्रमाण-पत्र
MANAGER'S CERTIFICATE

स्थान : _____

Station :

दिनांक : _____

Date :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती..... की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय उनके निम्नलिखित खाते थे जिनमें नीचे बताई गई रकम शेष है:-

I certify that Shri/Smt _____ has died and left following accounts at the time of death showing balances as under:

खातों की किस्म Nature of A/c(s)	खाता संख्या A/c No.	शेष रकम (रूपयों में) Balance (in Rupees)

(सावधि जमा रसीद के मामले में कृपया देय तिथि बतायें)
(In case of fixed deposit receipt, please mention due date)

मैंने भली भाँति जाँच पड़ताल करली है और मैं सत्यापित करता हूँ कि मृतक के केवल निम्नलिखित उत्तराधिकारी हैं, अन्य कोई नहीं यहाँ बतायें कि उत्तराधिकारी वयस्क है या अवयस्क)

I have made proper enquiries and verify that he/she has left the following heirs and no others (State whether minor or major)

नाम Name(s)	संबंध Relationship	नाम Name(s)	संबंध Relationship

सिफारिश की जाती है/ Recommended that

प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी
Manager/Officer-in-Charge

प्रधान कार्यालय के विधि विभाग की टिप्पणी
Noting at the Law Deptt. H.O.

कानूनी सलाहकार की राय, यदि कोई हो
Opinion of legal advisor, if any

मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के आदेश
Order of sanctioning authority